

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2017—चैत्र 17, शक 1939

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. स्था.निर्वा.-डूडा-2552-2017.—दिनांक 31 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं श्रीमन् शुक्ल, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी, नगर परिषद् धरमपुरी के वार्डों को नीचे दी गई सारणी के अनुसार आरक्षित करते हुए नियम 7 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूँ:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)	आरक्षित/अनारक्षित (3)	वर्ग (4)
1	वार्ड क्र. 01 संगम वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग
2	वार्ड क्र. 02 गांधी वार्ड	आरक्षित	अनुसूचित जाति
3	वार्ड क्र. 03 आनाद वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग
4	वार्ड क्र. 04 शहीद भगतसिंह वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित
5	वार्ड क्र. 05 सरदार पटेल वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
6	वार्ड क्र. 06 डॉ. अम्बेडकर वार्ड	आरक्षित	अनुसूचित जनजाति
7	वार्ड क्र. 07 जवाहर वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग महिला
8	वार्ड क्र. 08 नर्मदा वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला

(1)	(2)	(3)	(4)
9	वार्ड क्र. 09 तिलक वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित
10	वार्ड क्र. 10 शीतलामाता वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित
11	वार्ड क्र. 11 डॉ. मुखर्जी वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
12	वार्ड क्र. 12 लक्ष्मीबाई वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
13	वार्ड क्र. 13 इंदिरा वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग महिला
14	वार्ड क्र. 14 नेताजी वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
15	वार्ड क्र. 15 शास्त्री वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला

श्रीमन् शुक्ल, कलेक्टर

क्र. स्था.निर्वा.-डूडा-2552-2017

धार, दिनांक 31 मार्च 2017

नगर परिषद्, धरमपुरी, जिला धार के वार्डों का आरक्षण  
वार्ड आरक्षण दिनांक 31 मार्च 2017

अनु क्रमांक	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	2017 अनुसार वार्ड आरक्षण की स्थिति	
			वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	वार्ड क्र. 02	गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	वार्ड क्र. 06	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित वार्ड	04	वार्ड क्र. 01 वार्ड क्र. 03 वार्ड क्र. 07 वार्ड क्र. 13	संगम वार्ड आजाद वार्ड जवाहर वार्ड इंदिरा वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	00	—	—
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	00	—	—
6	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	02	वार्ड क्र. 07 वार्ड क्र. 13	जवाहर वार्ड इंदिरा वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	वार्ड क्र. 05 वार्ड क्र. 08 वार्ड क्र. 11 वार्ड क्र. 12 वार्ड क्र. 14 वार्ड क्र. 15	सरदार पटेल वार्ड नर्मदा वार्ड डॉ. मुखर्जी वार्ड लक्ष्मी बाई वार्ड नेताजी वार्ड शास्त्री वार्ड

श्रीमन् शुक्ल, कलेक्टर

धार, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. स्था.निर्वा.-डूडा-2556-2017.—दिनांक 31 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं श्रीमन् शुक्ल, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी, नगर परिषद्, धामनोद के वार्डों को नीचे दी गई सारणी के अनुसार आरक्षित करते हुए नियम 7 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करता हूँ:—

सारणी

क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)	आरक्षित/अनारक्षित (3)	वर्ग (4)
1	वार्ड क्र. 01 इंदिरा गांधी वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग
2	वार्ड क्र. 02 हनुमान वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग
3	वार्ड क्र. 03 वीरसावरकर वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
4	वार्ड क्र. 04 देवी अहिल्या वार्ड	आरक्षित	अनुसूचित जनजाति महिला
5	वार्ड क्र. 05 संजय गांधी वार्ड	आरक्षित	अनुसूचित जनजाति महिला
6	वार्ड क्र. 06 चन्द्रशेखर वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग महिला
7	वार्ड क्र. 07 लोकमान्य तिलक वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
8	वार्ड क्र. 08 शहीद भगतसिंह वार्ड	आरक्षित	पिछड़ा वर्ग महिला
9	वार्ड क्र. 09 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित
10	वार्ड क्र. 10 डॉ. मुखर्जी वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
11	वार्ड क्र. 11 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
12	वार्ड क्र. 12 जवाहरलाल नेहरू वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित
13	वार्ड क्र. 13 महात्मा गांधी वार्ड	अनारक्षित	अनारक्षित
14	वार्ड क्र. 14 सरदार पटेल वार्ड	आरक्षित	अनुसूचित जाति
15	वार्ड क्र. 15 राजीव गांधी वार्ड	आरक्षित	अनुसूचित जनजाति

श्रीमन् शुक्ल, कलेक्टर.

क्र. स्था.निर्वा.-डूडा-2556-2017

धार, दिनांक 31 मार्च 2017

नगर परिषद् धामनोद, जिला धार के वार्डों का आरक्षण  
वार्ड आरक्षण दिनांक 31 मार्च 2017

अनु क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	2017 अनुसार वार्ड की स्थिति	
			वार्ड क्रमांक (4)	वार्ड का नाम (5)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	वार्ड क्र. 14	सरदार पटेल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	03	वार्ड क्र. 05 वार्ड क्र. 15 वार्ड क्र. 04	संजय गांधी वार्ड राजीव गांधी वार्ड देवी अहिल्याबाई वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित वार्ड	04	वार्ड क्र. 01 वार्ड क्र. 02	इंदिरा गांधी वार्ड हनुमान वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	00	वार्ड क्र. 06 वार्ड क्र. 08 —	चन्द्रशेखर वार्ड शहीद भगतसिंह वार्ड —
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	02	वार्ड क्र. 05 वार्ड क्र. 04	संजय गांधी वार्ड देवी अहिल्याबाई वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	02	वार्ड क्र. 06 वार्ड क्र., 08	चन्द्रशेखर वार्ड शहीद भगतसिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	वार्ड क्र. 03 वार्ड क्र. 07 वार्ड क्र. 10 वार्ड क्र. 11	वीर सावरकर वार्ड लोक मान्य तिलक वार्ड डॉ. मुखर्जी वार्ड सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

श्रीमन् शुक्ल, कलेक्टर.